

Shri Baglamukhi Chalisa – सम्पूर्ण पाठ

॥ दोहा ॥ (Opening Doha)

हिंदी पाठ:

नमो महाविधा बरदा, बगलामुखी दयाल ।
स्तम्भन क्षण में करे, सुमरित अरिकुल काल ॥

English Transliteration:

Namo Mahavidha Varadaa, Baglamukhi Dayaala |
Stambhan Kshan Mein Kare, Sumarit Arikul Kaal ||

सरल अर्थ: हे वरदान देने वाली महाविद्या माँ बगलामुखी, आपको नमन है। आप दयालु हैं। जो भी आपका स्मरण करता है, आप क्षण भर में उसके शत्रुओं के समूह का काल (नाश) बन जाती हैं।

॥ चौपाई ॥ (Chaupais 1–40)

॥ चौपाई 1 ॥

नमो नमो पीताम्बरा भवानी
बगलामुखी नमो कल्याणी ।

Transliteration:

Namo Namo Peetambara Bhavaani,
Baglamukhi Namo Kalyaani |

॥ चौपाई 2 ॥

भक्त वत्सला शत्रु नशानी
नमो महाविधा वरदानी ।

Transliteration:

Bhakt Vatsala Shatru Nashaani,
Namo Mahavidha Varadaani |

॥ चौपाई 3 ॥

अमृत सागर बीच तुम्हारा
रत्न जड़ित मणि मंडित प्यारा ।

Transliteration:

Amrit Saagar Beech Tumhaara,
Ratna Jadit Mani Mandit Pyaara |

॥ चौपाई 4 ॥

स्वर्ण सिंहासन पर आसीना
पीताम्बर अति दिव्य नवीना ।

Transliteration:

Swarna Simhaasan Par Aaseena,
Peetambar Ati Divya Naveena |

॥ चौपाई 5 ॥

स्वर्णभूषण सुन्दर धारे
सिर पर चन्द्र मुकुट श्रृंगारे ।

Transliteration:

Swarnabhooshan Sundar Dhaare,
Sir Par Chandra Mukut Shringaare |

॥ चौपाई 6 ॥

तीन नेत्र दो भुजा मृणाला
धारे मुद्रर पाश कराला ।

Transliteration:

Teen Netra Do Bhuja Mrinaala,
Dhaare Mudrar Paash Karaala |

॥ चौपाई 7 ॥

भैरव करे सदा सेवकाई
सिद्ध काम सब विघ्न नसाई ।

Transliteration:

Bhairav Kare Sadaa Sevakaeee,
Siddha Kaam Sab Vighna Nasaaee |

॥ चौपाई 8 ॥

तुम हताश का निपट सहारा
करे अकिंचन अरिकल धारा ।

Transliteration:

Tum Hataash Ka Nipat Sahaara,
Kare Akinchan Arikal Dhaara |

॥ चौपाई 9 ॥

तुम काली तारा भुवनेशी
त्रिपुरसुन्दरी भैरवी वेशी ।

Transliteration:

Tum Kaali Taaraa Bhuvneshi,
Tripurasundari Bhairavi Veshi |

॥ चौपाई 10 ॥

छिनाल घूमा मातंगी गायत्री
तुम बगला रंगी ।

Transliteration:

Chhinaal Ghoomaa Maatangi Gaayatri,
Tum Baglaa Rangi |

॥ चौपाई 11 ॥

सकल शक्तियाँ तुम में साजें
हीं बीज के बीज बिराजे ।

Transliteration:

Sakal Shaktiyaan Tum Mein Saajen,
Hreem Beej Ke Beej Biraaje |

॥ चौपाई 12 ॥

दुष्ट स्तम्भन अरिकुल कीलन
मारण वशीकरण सम्मोहन ।

Transliteration:

Dushta Stambhan Arikul Keelan,
Maaran Vashikaran Sammohana |

॥ चौपाई 13 ॥

दुष्टोच्चाटन कारक माता
अरि जिह्वा कीलक सघाता ।

Transliteration:

Dushtocchaatan Kaarak Maataa,
Ari Jivhaa Keelak Saghaataa |

॥ चौपाई 14 ॥

साधक के विपति की त्राता
नमो महामाया प्रख्याता ।

Transliteration:

Saadhak Ke Vipati Ki Traataa,
Namo Mahaamaayaa Prakhyaataa ।

॥ चौपाई 15 ॥

मुद्रर शिला लिये अति भारी
प्रेतासन पर किये सवारी ।

Transliteration:

Mudrar Shilaa Liye Ati Bhaari,
Pretaasan Par Kiye Savaaree ।

॥ चौपाई 16 ॥

तीन लोक दस दिशा भवानी
बिचरहु तुम हित कल्यानी ।

Transliteration:

Teen Lok Das Dishaa Bhavaani,
Bicharahu Tum Hit Kalyaani ।

॥ चौपाई 17 ॥

अरि अरिष्ट सोचे जो जन को
बुद्धि नाशकर कीलक तन को ।

Transliteration:

Ari Arisht Soche Jo Jan Ko,
Buddhi Naashkar Keelak Tan Ko ।

॥ चौपाई 18 ॥

हाथ पांव बाँधहु तुम ताके
नहु जीभ बिच मुद्रर बाके ।

Transliteration:

Haath Paanv Baandhahu Tum Taake,
Nahu Jeebh Bich Mudrar Baake ।

॥ चौपाई 19 ॥

चोरो का जब संकट आवे
रण में रिपुओं से घिर जावे ।

Transliteration:

Choro Ka Jab Sankat Aave,
Ran Mein Ripuon Se Ghir Jaave |

॥ चौपाई 20 ॥

अनल अनिल बिप्लव घहरावे
वाद विवाद न निर्णय पावे ।

Transliteration:

Anal Anil Biplav Ghahraave,
Vaad Vivaad Na Nirnay Paave |

॥ चौपाई 21 ॥

मूठ आदि अभिचारण संकट
राजभीति आपत्ति सन्निकट ।

Transliteration:

Mooth Aadi Abhichaaran Sankat,
Raajbheeti Aapatti Sannikat |

॥ चौपाई 22 ॥

ध्यान करत सब कष्ट नसावे
भूत प्रेत न बाधा आवे ।

Transliteration:

Dhyaan Karat Sab Kasht Nasaave,
Bhoot Pret Na Baadha Aave |

॥ चौपाई 23 ॥

सुमरित राजद्वार बंध जावे
सभा बीच स्तम्भवन छावे ।

Transliteration:

Sumarit Raajdwaar Bandh Jaave,
Sabhaa Beech Stambhavan Chhaave |

॥ चौपाई 24 ॥

नाग सर्प ब्रचिश्रकादि भयंकर
खल विहंग भागहिं सब सत्वर ।

Transliteration:

Naag Sarp Vrishchikadi Bhayankar,
Khal Vihang Bhaagahin Sab Satvar ।

॥ चौपाई 25 ॥

सर्व रोग की नाशन हारी
कुल मूलच्चाटन का ।

Transliteration:

Sarv Rog Ki Naashan Haari,
Kul Moolocchaatan Kaa ।

॥ चौपाई 26 ॥

स्त्री पुरुष राज सम्मोहक
नमो नमो पीताम्बर सोहक ।

Transliteration:

Stree Purush Raaj Sammohak,
Namo Namo Peetambar Sohak ।

॥ चौपाई 27 ॥

तुमको सदा कुबेर मनावे
श्री समृद्धि सुयश नित गावें ।

Transliteration:

Tumako Sadaa Kuber Manaave,
Shree Samriddhi Suyash Nit Gaaven ।

॥ चौपाई 28 ॥

शक्ति शौर्य की तुम्हीं विधाता
दुःख दारिद्र विनाशक माता ।

Transliteration:

Shakti Shaurya Ki Tumhi Vidhaataa,
Dukh Daaridra Vinaashak Maataa ।

॥ चौपाई 29 ॥

यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता
शत्रु नाशिनी विजय प्रदाता ।

Transliteration:

Yash Aishwarya Siddhi Ki Daataa,
Shatru Naashini Vijay Pradaataa ।

॥ चौपाई 30 ॥

पीताम्बरा नमो कल्याणी
नमो माता बगला महारानी ।

Transliteration:

Peetambara Namō Kalyaani,
Namō Maataa Baglaa Mahaaraani ।

॥ चौपाई 31 ॥

जो तुमको सुमरै चितलाई
योगक्षेम से करो सहाई ।

Transliteration:

Jo Tumako Sumarai Chitalaai,
Yogakshema Se Karo Sahaaee ।

॥ चौपाई 32 ॥

आपत्ति जन की तुरत निवारो
आधि व्याधि संकट सब टारो ।

Transliteration:

Aapatti Jan Ki Turat Nivaaro,
Aadhi Vyaadhi Sankat Sab Taaro ।

॥ चौपाई 33 ॥

पूजा विधि नहिं जानत तुम्हरी
अर्थ आवर करहूँ निहोरी ।

Transliteration:

Pooja Vidhi Nahin Jaanat Tumhari,
Arth Aavar Karahoon Nihori ।

॥ चौपाई 34 ॥

मैं कुपुत्र अति निवल उपाया
हाथ जोड़ शरणागत आया ।

Transliteration:

Main Kuputra Ati Nival Upaayaa,
Haath Jod Sharanagat Aayaa |

॥ चौपाई 35 ॥

जग में केवल तुम्हीं सहारा
सारे संकट करहुँ निवारा ।

Transliteration:

Jag Mein Keval Tumhi Sahaara,
Saare Sankat Karahoon Nivaara |

॥ चौपाई 36 ॥

नमो महादेवी हे माता
पीताम्बरा नमो सुखदाता ।

Transliteration:

Namo Mahaadevee He Maataa,
Peetambaraa Namu Sukhadaataa |

॥ चौपाई 37 ॥

सोम्य रूप धर बनती माता
सुख सम्पत्ति सुयश की दाता ।

Transliteration:

Somya Roop Dhar Bantee Maataa,
Sukh Sampatti Suyash Ki Daataa |

॥ चौपाई 38 ॥

रौद्र रूप धर शत्रु संहारो
अरि जिह्वा में मुद्रर मारो ।

Transliteration:

Raudra Roop Dhar Shatru Sanhaaro,
Ari Jivhaa Mein Mudrar Maaroo |

॥ चौपाई 39 ॥

नमो महाविधा आगारा
आदि शक्ति सुन्दरी आपारा ।

Transliteration:

Namo Mahavidha Aagaaraa,
Aadi Shakti Sundari Aapaaraa ।

॥ चौपाई 40 ॥

अरि भंजक विपत्ति की त्राता
दया करो पीताम्बरी माता ।

Transliteration:

Ari Bhanjak Vipatti Ki Traataa,
Dayaa Karo Peetambaree Maataa ।

॥ समापति दोहा ॥ (Closing Doha)

हिंदी पाठ:

रिद्धि सिद्धि दाता तुम्हीं, अरि समूल कुल काल ।
मेरी सब बाधा हरो, माँ बगले तत्काल ॥

English Transliteration:

Riddhi Siddhi Daata Tumhi, Ari Samool Kul Kaal ।
Meri Sab Baadha Haro, Maan Bagale Tatkaal ॥

सरल अर्थ:

हे माँ बगलामुखी! आप ही ऋद्धि-सिद्धि देने वाली हैं और शत्रुओं के समूल नाश करने वाली हैं। मेरी सभी बाधाएँ तत्काल दूर करो, हे माँ बगले!

॥ इति श्री बगलामुखी चालीसा सम्पूर्ण ॥